



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1973/अग्राहायण 24, 1895

No. 296] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1973/AGRAHAYANA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रमाण सब जगह के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1973.

THE COMPANY'S LIQUIDATION ACCOUNT (AMENDMENT) RULES, 1973.

G. S. R. 523 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 555, read with sub-section (i) of section 642 of the Companies Act, 1956, (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company's Liquidation Account Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Company's Liquidation Account (Amendment) Rules, 1973.

2. In the Company's Liquidation Account Rules, 1965, for Annexure II, the following Annexure shall be substituted, namely:—

“ANNEXURE—II”

[See Rule 9(5)]

THIS DEED OF INDEMNITY made this..... day of between (Please see note (i)) residing at son of..... hereinafter referred to as the principal party (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns) of the first part [Please

see Note (ii).....].....son of
residing at
 Hereinafter referred to as the surety (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns) of the second part AND The Regional Director, Company Law Board Eastern/Southern/Western/Northern Region, having his office at.....(which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors in office) of the third part:

WHEREAS [Please see Note (III).....] Limited went into liquidation;

AND WHEREAS the Official Liquidator of the said company paid and deposited in the company's liquidation account in the public account of Government of India the balance of the monies in his hands or under his control representing unclaimed dividends payable to the creditors and/or undistributed assets refundable to contributors, which remained unclaimed and/or undistributed for over six months after the same became payable:

AND WHEREAS the amount deposited into the Company's Liquidation Account includes a sum of Rs.....payable as dividend/undistributed assets to Shri.....
(state the name of the person in whose name the amount stands deposited)
 as a Creditor/Contributor;

AND WHEREAS the Principal party claims to be solely entitled to the said sum of Rs.....
(as heirs/executors/administrators/legal-representatives assigns)
 [See (Please Note IV)]

AND WHEREAS principal party could not file his claim to the liquidator for the said sum on account of[Please see Note (V).....]

AND WHEREAS the principal party or any other person on his behalf has not made an application in any Court for any order for payment of the said sum of Rs.....
 and no such application is pending in any Court of law in the Union of India;

AND WHEREAS the principal party has requested the Regional Director aforesaid to make payment of the said sum of money claimed by him out of the said company's liquidation account with regard to the said company;

AND WHEREAS by virtue of delegation from the Central Government (*Vide* Notification No. GSR-71 dated the 1st January, 1966 read with Section 637 (1) (b) of the Companies Act, 1956) the said Regional Director is competent under section 555(7) (b) of the said Act to make an order for the payment of the sum so claimed by the principal party and requires for the purpose of such an order an indemnity to be executed by the principal party in the manner following —

NOW THIS DEED WITNESSETH that in pursuance of the representation made by the principal party as aforesaid and of the said requirement and in consideration of the payment by the said Regional Director to the Principal party of the sum of Rs.....the principal party and the surety hereby jointly and severally undertake and bind themselves to pay to the said Regional Director on demand and without demur the said sum of Rs.....together with interest at 6% per annum, in the event of the said sum being found to be not payable to the principal party (and the decision of the Government in this behalf shall be final and binding on the parties) and the principal party and the surety hereby further undertake that they will at all times indemnify and keep the said Regional Director indemnified and harmless from all liabilities with regard to the payment made to the principal party as aforesaid and against all actions, claims and demands, costs damages and expenses which may be levied, brought or made against the said Regional Director by any person by reason of the payment being made by the said Regional Director of the said sum as aforesaid.

IN WITNESS whereof the parties hereto have set their respective hands the day and the year first above written.

Signature of the Principal Party

Signed, sealed & delivered by the Principal party
 who is personally known to me and signed in
 my presence.

Signature of witnessSignature of Surety.
 His occupation & Address.

The surety is personally known to me and signed
 in my presence.

Signature of Witness
 His occupation & Address

ACCEPTED.

Regional Director
 Company Law
 BoardRegion.

NOTES :—

- (I) Here quote the name of the claimant who is the Principal Party.
 (II) Here quote the name of the Surety, if any.
 (III) Here quote the name of the company in respect whereof the payment is being made.
 (IV) The portion in brackets may be retained where applicable i.e. in cases where the amount does not stand to the credit of the principal party.
 (V) Here state the reasons why the claimant could not receive money now claimed earlier.
 (VI) In the case of an executant who is not well conversant with English, the deed should be properly read over and explained by a competent person who should attest to that effect.

Please strike off whatever words are not necessary or appropriate.

CERTIFICATE OF SOLVENCY

This is to certify that Shri S/o Shri
 of is personally known to
 me and that he is solvent enough to stand surety for sum of Rs. only.

Date,

Signature of the Gazetted Officer, Revenue
 Officer or a member of Municipality.

Designation with the stamp of office.

[No. 2/19/71-CL.V]

P. B. MENON, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

दधिसूचना

मई विसली 21, नवम्बर, 1973

कम्पनी का परि-समापन खाता (संशोधन) नियम, 1973

सांकांति 523 (अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 555 का, उपधारा (1) के साथ पठित, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कम्पनी का परि-समापन खाता नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम कम्पनी का परि-समापन खाता (संशोधन) नियम, 1973 है।
- (2) कम्पनी का परि-समापन खाता नियम, 1965 में, उपाबंध 2 के स्थान पर, निम्न-लिखित उपाबंध रखे जाएगा, अर्थात् :—

“उपाबंध 2”

[नियम 9(5) देखें]

प्रथम पक्षकार के रूप में का निवासी और का
 पुत्र
 (कृपया टिप्पण (1) देखें))

जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य पक्षकार कहा गया है (जिस पद के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अप-
वर्जित या में विरुद्ध न हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती
आते हैं) ;

द्वितीय पक्षकार के रूप में का निवासी और
का पुत्र

(कृपया टिप्पण (II) देखें

जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिष्ठा कहा गया है (जिस पद के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या
में विरुद्ध न हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती आते हैं)

और तृतीय पक्षकार के रूप में प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी-विधि-बोर्ड पूर्वी/दक्षिण/पश्चिमी/उत्तरी
क्षेत्र, जिसका कार्यालय में स्थित है (जिस पद के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से

अपवर्जित या में विरुद्ध न हो, उसके पदीतरवर्ती आते हैं) के बीच आज के/की

..... के दिन निष्पादित किया गया अतिप्रति-

विलेख ;

यत : (कृपया टिप्पण (III) देखें) लिमिटेड का समापन हो गया
है ;

और यत : उक्त कम्पनी के शासकीय समापक के हाथ में या उसके नियन्त्राधीन धन-राशिओं
का ऐसा अतिशेष जो लेनदारों को देय ऐसे अदावाकृत लाभों और/या अधिदायी को प्रतिदेय ऐसी अवि-
तरित आस्तियों के मध्ये हैं, जो उनके देय हो जाने के पश्चात् छह मास से अधिक की अवधि तक अदावाकृत
और/या अवितरित रहे हैं/या रही हों, भारत सरकार के भोक खाते में के कम्पनी के परि-समापन खाते में
संदर्भ और जमा कर दिया है ;

यत : कम्पनी के परि-समापन खाते में जमा की गई रकम के अन्तर्गत लेनदार/अधिदायी की
हस्तियत में श्री (उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके नाम में रकम जमा
है) को लाभों/अवितरित आस्तियों के रूप में देय र० की राशि भी है ;

और यत : मुख्य पक्षकार ने र० को उक्त राशि का (वारिस/निष्पादक/
प्रशासक/विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिती की हस्तियत में) एकल रूप से हस्तांतर देने का दावा किया है ;

और यत : मुख्य पक्षकार (कृपया टिप्पण (भी) देखें)
के कारण उक्त राशि के संबंध में समापक को अपना दावा फाइल नहीं कर सका ;

और यत : मुख्य पक्षकार या उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति ने र०
की उक्त राशि के दिए जाने के लिए कोई आदेश दिए जाने के लिए किसी न्यायालय में कोई आवेदन नहीं
किया है और कोई भी ऐसा आवेदन भारत-संघ के किसी न्यायालय में लंबित नहीं है ;

और यत : मुख्य पक्षकार ने उक्त कम्पनी से सम्बद्ध उक्त कम्पनी के परि-समापन खाते में से
अपने द्वारा दावाकृत उक्त धन-राशि के दिए जाने के लिए पूर्वोक्त प्रादेशिक निदेशक से निवेदन किया है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार से प्रत्यायोजन के आधार पर (कम्पनी अधिनियम) 1950 की धारा
637(1) (ख) के साथ पठित अधिसूचना सं० सा०ना०नि०-71, तारीख 1 जनवरी, 1966 देखें)
उक्त प्रादेशिक निदेशक, मुख्य पक्षकार द्वारा इस प्रकार दावाकृत राशि के दिए जाने के लिए कोई
आदेश देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 655 (7) (ख) के अर्जन तकम ई और यह ऐसा आदेश

दिए जाने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा करता है कि क्षतिपूर्ति विलेख का निष्पादन मुख्य पक्षकार द्वारा निम्न प्रकार किया जाए :

अब यह विलेख इस बात का साक्ष्य है कि मुख्य पक्षकार द्वारा पूर्वोक्त रूप से किए गए व्यपदेशन के और उक्त अपेक्षा के अनुसरण में तथा उक्त प्रादेशिक निदेशक द्वारा मुख्य पक्षकार की—रु० की राशि के दिए जाने के प्रतिफलस्वरूप मुख्य पक्षकार और प्रतिभू, मांग करने पर और बिना किसी पूर्वापत्ति के उक्त प्रादेशिक निदेशक को—रूप की उक्त राशि और साथ ही मुख्य पक्षकार को असंवेद्य मानी गई उक्त राशि (और इस निमित्त सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा) की दशा में, छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज, देने के लिए एतद्द्वारा स्वयं को संयुक्त : और पृथक् : वचनबद्ध और आबद्ध करते हैं तथा मुख्य पक्षकार और प्रतिभू एतद्द्वारा यह और वचन देते हैं कि वे मुख्य पक्षकार को पूर्वोक्त रूप से किए गए संदाय से सम्बद्ध सभी दायित्वों से और सभी अनुयोजनों, दावों और मांगों, खर्चों, नुकसानों और व्ययों से जो उक्त प्रादेशिक निदेशक द्वारा उक्त राशि का पूर्वोक्त रूप से संदाय कर दिए जाने के कारण उक्त प्रादेशिक निदेशक के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा उद्गाहृत, किए जाएं, लागू जाएं या किए जाएं, सभी रूपों पर उक्त प्रादेशिक निदेशक की क्षतिपूर्ति करेंगे और उसको क्षतिपूर्ति और हानि मुक्त रखेंगे ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

मुख्य पक्षकार के हस्ताक्षर ।

मुख्य पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और परिसृत जिसको मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं ।

साक्षी के हस्ताक्षर—प्रतिभू के हस्ताक्षर—

उसकी उपजीविका और पता । प्रतिभू को मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं ।

स्वीकृत

साक्षी के हस्ताक्षर—

प्रादेशिक निदेशक

उसकी उपजीविका और पता

क्षेत्र,

कम्पनी विधि—बोर्ड ।

टिप्पण:—

- (1) यहां उस दावेदार का नाम लिखें जो मुख्य पक्षकार है ।
- (2) यहां प्रतिभू, यदि कोई हो, का नाम लिखें ।
- (3) यहां उस कम्पनी का नाम लिखें जिसके बारे में सदय किया जा रहा है ।
- (4) जहां लागू हो वहां कोडों में के भाग बनाए रखें जाएं अर्थात् ऐसी दशाओं में जहां रकम मुख्य पक्षकार के नाम में जमा न हो ।
- (5) यहां वे कारण लिखें जिनकी वजह से दावेदार इस समय दायित्व धन को प्राप्त नहीं कर सका ।

(6) ऐसे निष्पादों की दशा में जो अंग्रेजी भली प्रकार नहीं जानता है। विशेष उसे किसी सज्जन व्यक्ति द्वारा ठीक तरह पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए और समझाया जाना चाहिए, जिसको तदर्थ की अनुमति भी करना चाहिए। कृपया वे शब्द काट दें जो आवश्यक या समुचित नहीं हैं।

शेषन क्षमता, प्रमाण पत्र

वह प्रमाणित किया जाता है कि—
 के निवासी और श्री— के पुत्र
 श्री— को में वैयक्तिक रूप से
 जानता हूँ और वह— २० की राशि
 मात्र के लिए प्रतिभं बनने के लिए पर्याप्त रूप से शोधक्षम है।

तारीख :—

राजपक्षित अधिकारी, राजस्व अधिकारी
 या नगरपालिका के सदस्य के हस्ताक्षर।

पदाभिधान और कार्यालय की मुद्रा।

[सं० फा० 2/19/71-सी० एल० 5]

पी० बी० मेनन, संयुक्त सचिव।